

रुका / फंसा हुआ धन वापस पाने का उपाय

अक्सर ऐसा होता है की अपने किसी करीबी या परिचित की परेशानी देख सुनकर आप अपने मेहनत के पैसे मदद करने के मकसद से उन्हें उधर दे देते हैं और इंतज़ार करते हैं की वो व्यक्ति समय ठीक होने या सक्षम होने पर आपके पैसे वापस कर देगा। आपसे पैसे लेकर वो तो अपना काम बना लेता है पर आपके पैसे वापस देना भूल जाता है। कई बार लोग ब्याज कमाने के लालच में भी उधर दे देते हैं पर ब्याज तो दूर मूल धन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारे परिचित या रिश्तेदार उधार मांगते हैं और जल्द लौटाने का वादा करते हैं ,पर उनका उनका वादा ,वादा ही रहता है और वह पैसे लौटाना भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं लौटाना चाहते | रिश्तेदार होने या परिचित-मित्र-पडोसी होने के कारण आप संबंधों का लिहाज करते हैं

अथवा चाहकर भी पैसे नहीं ले पाते | इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक उपाय तंत्र में हैं | उनमे से एक उपाय निम्न प्रकार है ,जो परेशां हैं उपरोक्त समस्या से करके देख सकते हैं

किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख कर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लोंग और एक कपूर का टुकड़ा डाल कर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें की अमुक व्यक्ति आपका सारा धन जल्दी से जल्दी वापस कर दे। अब इसी जलते हुए दीपक से एक चम्मच पर एक दो बूँद तेल चुपड़ कर काजल बना लें।

अब एक नए पतले और मुलायम कपड़े पर शमी वृक्ष की लकड़ी की कलम या जंगली/ नीले कबूतर के पंख से उसी काजल से उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम लिखें.

जिसने आपके पैसे वापस देने हैं। अब इस कपडे की बत्ती बना लें और आटे का एक दिया बनाकर उसमे तिल का तेल डाल कर पुनः हनुमान जी की प्रतिमा के आगे 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें और धन वापस प्राप्ति की प्रार्थना करें। धन मिलने पर संभव प्रसाद जैसे लड्डू नारियल आदि अर्पित करने का संकल्प करें। उपाए चाहे कोई भी करें पर ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें।